

अध्याय - 8 | व्यावसायिक वित्त के स्रोत

QUIZ
PART-10

1. ऋणपत्र क्या है?

- A. अल्पकालिक ऋण
- B. कंपनी द्वारा जारी किया गया निश्चित ब्याज वाला वचन पत्र
- C. शेयर के समान स्वामित्व अधिकार
- D. सरकारी अनुदान (B)

व्याख्या: ऋणपत्र एक वचन पत्र है जिसमें कंपनी निश्चित ब्याज दर पर धन उधार लेती है।

2. ऋणपत्र किस प्रकार की पूँजी जुटाने का साधन है?

- A. अल्पकालिक
- B. मध्यम अवधि
- C. दीर्घ अवधि
- D. व्यक्तिगत पूँजी (C)

व्याख्या: ऋणपत्रों का उपयोग दीर्घ अवधि की ऋणगत पूँजी जुटाने के लिए किया जाता है।

3. सुरक्षित ऋणपत्र की विशेषता क्या है?

- A. संपत्तियों पर कोई भार नहीं
- B. कंपनी की संपत्तियों को गिरवी रखकर जारी किया जाता है
- C. केवल छोटे निवेशकों द्वारा खरीदे जाते हैं
- D. कम अवधि के लिए होते हैं (B)

व्याख्या: सुरक्षित ऋणपत्र कंपनी की कुछ संपत्तियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं।

4. वाहक ऋणपत्र की पहचान क्या है?

- A. केवल रजिस्टर में नाम दर्ज होने पर हस्तांतरण
- B. सुपुर्दगी मात्र से हस्तांतरण
- C. कर लाभ प्राप्त होना
- D. मतदान का अधिकार (B)

व्याख्या: वाहक ऋणपत्र केवल सुपुर्दगी से ही हस्तांतरित किए जा सकते हैं।

5. परिवर्तनीय ऋणपत्रों की विशेषता क्या है?

- A. वापस नहीं लिए जा सकते
- B. समय पूर्ण होने पर समता अंशों में बदले जा सकते हैं
- C. ब्याज दर अनिश्चित होती है
- D. केवल अल्पकालिक उपयोग (B)

व्याख्या: परिवर्तनीय ऋणपत्र निर्धारित अवधि पर समता अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं।

6. प्रथम ऋणपत्र किसका संकेत देता है?

- A. सबसे अधिक जोखिम
- B. सबसे पहले भुगतान का अधिकार
- C. मतदान शक्ति
- D. लाभांश कम मिलने का अधिकार (B)

व्याख्या: प्रथम ऋणपत्रों का भुगतान द्वितीय ऋणपत्रों से पहले किया जाता है।

7. ऋणपत्र का एक प्रमुख गुण क्या है?

- A. लाभ में भागीदारी
- B. मतदान का अधिकार
- C. कम जोखिम और स्थिर आय
- D. उच्च लाभांश (C)

व्याख्या: ऋणपत्रधारकों को कम जोखिम पर स्थिर ब्याज प्राप्त होता है।

8. ऋणपत्र की एक सीमा क्या है?

- A. मतदान अधिकार मिलना
- B. लाभ होने पर ही ब्याज देना
- C. आय घटने पर भी ब्याज का भार बना रहता है
- D. स्वामित्व अधिकार मिलना (C)

व्याख्या: ऋणपत्रों पर ब्याज निश्चित होता है, इसलिए आय कम होने पर भी भुगतान अनिवार्य है।

9. ऋणपत्र जारी करने से किस पर प्रभाव पड़ता है?

- A. कर दर पर
- B. ऋण सीमा पर
- C. कर्मचारियों की संख्या पर
- D. उत्पादन लागत पर (B)

व्याख्या: अधिक ऋणपत्र जारी होने से कंपनी की ऋण सीमा प्रभावित होती है और भविष्य में ऋण लेना कठिन हो सकता है।

10. ऋणपत्रों की लागत कम होने का कारण क्या है?

- A. लाभ में भागीदारी
- B. ब्याज पर कर छूट
- C. मतदान अधिकार
- D. जोखिम अधिक होना (B)

व्याख्या: ब्याज पर कर लाभ मिलने से ऋणपत्रों की वास्तविक लागत कम हो जाती है।